

Isa

Chapter 55

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

שָׁבְרוּ खरीदो H7666	לָכוּ आओ H3212	כֶּסֶף चाँदी H3701	לוֹ उसके-पास H3701	אֵין नहीं H0369	וְאֶשֶׁר और-जिसके-पास H0369	לַמַּיִם पानीके-पास H4325	לָכוּ आओ H3212	צָמָא प्यासे H6771	כָּל- सब H3605	הוּי हे H1945	1
		וְחָלָב: और-दूध H2461	יֵין दाखरस H3196	מִחִיר दाम H4242	וּבִלְא और-बिना H3808	כֶּסֶף चाँदी H3701	בִּלְא- बिना H3808	שָׁבְרוּ खरीदो H7666	וְלָכוּ और-आओ H3212	וְאָכְלוּ और-खाओ H0398	

“हे प्यासे लोगों, जल के पास आओ। यदि तुम्हारे पास धन ही है तो इसकी चिन्ता मत करो। आओ, खाना लो और खाओ। आओ, भोजन लो। तुम्हें इसकी कीमत देने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी कीमत के दूध और दाखमधु लो।

אֵלַי मेरी-और H0413	שִׁמּוֹעַ सुनना H8085	שִׁמְעוּ सुनो H8085	לְשִׁבְעָה तृप्तिके H7654	בִּלְא बिना H3808	וּיְנַיֵּעַכֶּם और-तुम्हारी-मेहनत H3018	לֶחֶם रोटी H3899	בִּלְא- बिना H3808	כֶּסֶף चाँदी H3701	תִּשְׁקְלוּ- तौलते-ही H8254	לָמָּה क्यों H4100	2
					נַפְשֵׁיכֶם: तुम्हारी-जान H5315	בְּדִשָׁן मोटाई-में H1880	וְתַעֲנִנִי और-आनन्दित-हो H6026	טוֹב अच्छा H6026	וְאָכְלוּ- और-खाओ H0398		

व्यर्थ ही अपना धन ऐसी किसीवस्तु पर क्यों बर्बाद करते हो जो सच्चा भोजन नहीं है ऐसी किसी वस्तु के लिये क्यों श्रम करते हो जो सचमुच में तुम्हें तृप्त नहीं करती मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सच्चा भोजन पाओगे। तुम उस भोजन का आनन्द लोगे। जिससे तुम्हारा मन तृप्त हो जायेगा।

בְּרִית वाचा H1285	לְכֶם तुम्हारे-साथ H1285	וְאֶכְרַתְהָ और-मैं-बाँधूँगा H3772	נַפְשֵׁיכֶם तुम्हारी-जान H5315	וְתַחֲוִי और-जीएगी H2421	שִׁמְעוּ सुनो H8085	אֵלַי मेरे-पास H0413	וְלָכוּ और-आओ H3212	אֲזַנְכֶם तुम्हारे-कान H0241	הִטּוּ झुकाओ H5186	3	
								הַנְּאֻמִּים: विश्वसनीय H0539	דָּוָד दाऊदकी H1732	קִפְאֵי कृपाएँ H1732	עוֹלָם अनन्त H5769

जो कुछ मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझ पर ध्यान दो कि तुम्हारा प्राण सजीव हो। तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे साथ एक वाचा करूँगा जो सदा—सदा के लिये बना रहेगा। यह वाचा वैसी ही होगी जैसी वाचा दाऊद के संग मैंने की थी। मैंने दाऊद को वचन दिया था कि मैं उस पर सदा करुणा करूँगा और तुम उस वाचा के भरोसे रह सकते हो।

לְאֻמִּים: जातियोंको H3816	וּמְצֹאָה और-आज्ञा-दनेवाला H6680	נְגִיד नेता H5057	נִתְחַוֶּי मैंने-उसे-ठहराया H5414	לְאֻמִּים जातियोंको H3816	עָר गवाह H5707	הֵן देखो H2005	4
----------------------------------	--	-------------------------	---	---------------------------------	----------------------	----------------------	---

मैंने अपनी उस शक्ति का दाऊद को साक्षी बनाया था जो सभी राष्ट्रों के लिये थी। मैंने दाऊद का बहुत देशों का प्रशासक और उनका सेनापति बनाया था।”

לְמַעַן के-कारण H4616	יְרוֹצְנוּ दौड़ेगी H7323	אֵלַי तेरे-पास H0413	יִדְעוּ तुझे-जानती H3045	לֹא- जो-नहीं H3808	וְגוֹי और-जाति H3808	תְּבִלָּה बुलाएगा H7121	תָּדַע तू-जानता H3045	לֹא- जिसे-नहीं H3808	גּוֹי जाति H3808	הֵן देखो H2005	5
			ס स	פְּאֵרָה: उसने-तुझे-शोभित-किया H3808	כִּי क्योंकि H3808	יִשְׂרָאֵל इस्राएलके H3478	וְלִקְרוֹשׁ और-पवित्रके H6918	אֵלֵהֶם तेरे-एलोहीमके H0430	יְהוָה यहोवा H3068		

अनेक अज्ञात देशों में अनेक अनजानी जातियाँ हैं। तू उन सभी जातियों को बुलायेगा, जो जातियाँ तुझ से अपरिचित हैं किन्तु वे भागकर तेरे पास आयेगी। ऐसा घटेगा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा ऐसा ही चाहता है। ऐसा घटेगा क्योंकि वह इस्राएल का पवित्र तुझको मान देता है।

6
 יְהוָה וְדָרְשׁוּ יְהוָה
 यहोवाको ढूँढो
 בְּהַמְצֵאוֹ כְּרֹאֵהוּ בְּהַיּוֹתוֹ קְרוֹב:
 जब-वह-मिल-सकता-है पुकारो-उसे जब-वह-है निकट
 H3068 H1875 H4672 H7121 H1961 H7138

सो तुम यहोवा को खोजो। कहीं बहुत देर न हो जाये। अब तुम उसको पुकार लो जब तक वह तुम्हारे पास है।

7
 יַעֲזֹב יְעֹזֵב רָשָׁע דְּרָבּוֹ וְאִישׁ אֲוֹן מִחֲשַׁבְתּוֹ וַיֵּשֶׁב אֶל-יְהוָה
 छोड़े दुष्ट अपना-मार्ग और-मनुष्य अपन-विचारोंकी दुष्टताका और-लौटे और-लौटे की-ओर यहोवा
 H3068 H1870 H7563 H0205 H0376 H4284 H7725 H0413

וַיִּרְחַמֶּהָ וְאֶל-אֱלֹהֵינוּ כִּי-יִרְבֶּה לְסֻלּוֹחַ:
 और-वह-उसपर-दया-करेगा और-की-ओर हमारे-एलोहीम क्योंकि बहुतायतसे क्षमा-करता-है
 H7355 H0413 H0430 H5545

हे पापियों! अपने पापपूर्ण जीवन को त्यागो। तुमको चाहिये कि तुम बुरी बातें सोचना त्याग दो। तुमको चाहिये कि तुम यहोवा के पास लौट आओ। जब तुम ऐसा करोगे तो यहोवा तुम्हें सुख देगा। उन सभी को चाहिये कि वे यहोवा की शरण में आयें क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करता है।

8
 כִּי לֹא מִחֲשַׁבּוֹתַי מִחֲשַׁבּוֹתֵיכֶם וְלֹא דְרִכְיִכֶם דְּרִכְיִי נֹאֵם יְהוָה:
 क्योंकि नहीं मेरे-विचार मेरे-विचार तुम्हारे-विचार और-नहीं मेरे-मार्ग तुम्हारे-मार्ग वचन यहोवाका
 H3808 H4284 H4284 H3808 H4284 H3808 H1870 H5002 H3068

यहोवा कहता है, "तुम्हारे विचार वैसे नहीं, जैसे मेरे हैं। तुम्हारी राहें वैसे नहीं जैसी मेरी राहें हैं।

9
 כִּי-נִבְהוּ שָׁמַיִם מֵאָרֶץ כֵּן נִבְהוּ זְרָעוֹת וְגַבְהוֹ דְּרִכְיִי מִדְּרִכְיִכֶם וּמִחֲשַׁבְתּוֹתַי מִמִּחֲשַׁבְתּוֹתֵיכֶם:
 क्योंकि-हैं ऊँचे-हैं आकाश पृथ्वी-से ऐसे उँचे-हैं मेरे-मार्ग मेरे-मार्ग-से तुम्हारे-मार्गों-से और-मेरे-विचार और-मेरे-विचार तुम्हारे-विचारों-से
 H1361 H8064 H0776 H1361 H1870 H4284 H4284 H1870

जैसे धरती से ऊँचे स्वर्ग हैं वैसे ही तुम्हारी राहों से मेरी राहें ऊँची हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊँचे हैं।" ये बातें स्वयं यहोवा ने ही कहीं हैं।

10
 כִּי כַּאֲשֶׁר יֵרֵד הַחֶשֶׁם וְהַשֶּׁלֶג וּמִן-הַשָּׁמַיִם וְשֶׁמֶה לֹא יָשׁוּב כִּי-אִם-נָהָה
 क्योंकि जैसे उतरती-है वर्षा और-बर्फ और-बर्फ और-बर्फ आकाश से और-वहाँ और-वहाँ लौटती जब-तक नहीं
 H3381 H1653 H7950 H8064 H8033 H3808 H7725

וְהָרְגָה אֶת-הָאָרֶץ וְהוֹלִידָהּ וְהַצְמִיחָהּ וְנָתַן זֵרַע לְיֹרְעֵי וְלֹחֶם לְאֹכְלֵי:
 और-जन्माती-है और-उगाती-है और-जन्माती-है और-देती-है और-देती-है और-रोटी बोनैवालेको और-रोटी खानेवालेको
 H0853 H0776 H3205 H6779 H5414 H2233 H2233 H3899 H0398

"आकाश से वर्षा और हिम गिरा करते हैं और वे फिर वहीं नहीं लौट जाते जब तक वे धरती को नहीं छू लेते हैं और धरती को गीला नहीं कर देते हैं। फिर धरती पौधों को अंकुरित करती है और उनको बढ़ाती है और वे पौधे किसानों के लिये बीज को उपजाते हैं और लोग उन बीजों से खाने के लिये रोटियाँ बनाते हैं।

11
 כֵּן יִהְיֶה דְבָרִי אֲשֶׁר יֵצֵא מִפִּי לֹא-יָשׁוּב אֵלַי רִיקָם כִּי-אִם-נָהָה
 ऐसे होगा मेरा-वचन मेरा-वचन जो निकलता-है मेरे-मुँह-से जो जब-तक नहीं खाली
 H1961 H1697 H3318 H3318 H6310 H3808 H7725 H0413 H7387

עֲשֵׂהָ אֶת-אֲשֶׁר חָפְצָתִי אֲשֶׁר חָפְצָתִי וְהַצְלִיחַ אֲשֶׁר שָׁלַחְתִּי:
 पूरा-करता-है को जो मैंने-चाहा और-सफल-करता-है जिसके-लिए मैंने-उसे-भेजा
 H0853 H7971

ऐसे ही मेरे मुख में से मेरे शब्द निकलते हैं और जब तक घटनाओं को घटा नहीं लेते, वे वापस नहीं आते हैं। मेरे शब्द ऐसी घटनाओं को घटाते हैं जिन्हें मैं घटवाना चाहता हूँ। मेरे शब्द वे सभी बातें पूरी करा लेते हैं जिनको करवाने को मैं उनको भेजता हूँ।

12
 כִּי-בְשִׂמְחָה תִּצְאוּ וּבְשָׁלוֹם תִּבְלְאוּ וְהַגְבַּעוֹת יִפְצְחוּ לְפָנֵיכֶם רְגָה
 क्योंकि-आनन्द-से निकलीगे आनन्द-से और-शान्ति-से और-शान्ति-से ले-जाओगे पहाड़ फूट-पड़ेंगे तुम्हारे-सामने जयजयकार
 H8057 H3318 H7965 H2986 H2022 H1389 H6476 H6440 H7440

וְכָל-עֵצֵי הַשָּׂדֶה יִמְחֹאוּ בְּךָ:
 और-सब पेड़ मैदानके ताली-बजाएंगे हाथ
 H3605 H6086 H4222 H3709

"जब तुम्हें आनन्द से भरकर शांति और एकता के साथ मैं उस धरती से छुड़ाकर ले जाया जा रहा होगा जिसमें तुम बन्दी थे, तो तुम्हारे सामने खुशी में पहाड़ फट पड़ेंगे और थिरकने लगेंगे। पहाड़ियाँ नृत्य में फूट पड़ेंगी। तुम्हारे सामने जंगल के सभी पेड़ ऐसे हिलने लगेंगे जैसे तालियाँ पीट रहे हो।

הָרָס मेंहदी H1918	יַעֲלֶה ऊपर-आएगा H5927	הִסְרָפָד बिछुआ-घासके H5636	(וַתַּחַת) और-के-बदले H8478	תַּחַת के-बदले H8478	בְּרוֹשׁ सनीबर H1265	יַעֲלֶה ऊपर-आएगा H5927	הַנְּעֻצִין कॉटिदार-झाड़ीके H5285	תַּחַת के-बदले H8478	
		ס स H3772	יִכָּרֵת: काटा-जाएगा H3772	לֹא नहीं H3808	עוֹלָם अनन्त H5769	לְאִוֹת चिह्नके-लिए H0226	לְשֵׁם नामके-लिए H8034	לְיְהוָה यहोवाके-लिए H3068	וְהָיָה और-होगा H1961

जहाँ कंटीली झाड़ियाँ उगा करती हैं वहाँ देवदार के विशाल वृक्ष उगेंगे। जहाँ खरपतवार उगा करते थे, वहाँ हिना के पेड़ उगेंगे। ये बातें उस यहोवा को प्रसिद्ध करेंगी। ये बातें प्रमाणित करेंगी कि यहोवा शक्तिपूर्ण है। यह प्रमाण कभी नष्ट नहीं होगा।”